

नकली सर्फ बनाने वाली फैक्टरी का भंडाफोड़

डिस्कलेमर: यह आर्टिकल एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड हुआ है। इसे नवभारतटाइम्स.कॉम की टीम ने एडिट नहीं किया है।

भाषा Updated: 08 Mar 2021, 12:02:00 AM

जींद, सात मार्च (भाषा) हरियाणा में जींद के नरवाना स्थित ढाकल रोड पर नकली सर्फ बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी के दौरान सैंकड़ों किलोग्राम नकली सर्फ बरामद किया है। मुम्बई उच्च न्यायालय की वकील वंदना गोवर के नेतृत्व में नरवाना पहुंची टीम के सदस्यों ने बताया कि नकली ब्रांडेड सर्फ बनाने का काम हरियाणा के जिले जींद के नरवाना कस्बे में बनाए जाने की सूचना मिली थी। इस पर हाईकोर्ट ने एक टीम गठित की और जांच के लिए नरवाना भेजा। रविवार को टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से नकली सर्फ बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की। बरामद किये गये नकली

जींद, सात मार्च (भाषा) हरियाणा में जींद के नरवाना स्थित ढाकल रोड पर नकली सर्फ बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी के दौरान सैंकड़ों किलोग्राम नकली सर्फ बरामद किया है।

मुम्बई उच्च न्यायालय की वकील वंदना गोवर के नेतृत्व में नरवाना पहुंची टीम के सदस्यों ने बताया कि नकली ब्रांडेड सर्फ बनाने का काम हरियाणा के जिले जींद के नरवाना कस्बे में बनाए जाने की सूचना मिली थी। इस पर हाईकोर्ट ने एक टीम गठित की और जांच के लिए नरवाना भेजा। रविवार को टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से नकली सर्फ बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की। बरामद किये गये नकली सर्फ में ब्रांडेड सर्फ जैसे घड़ी, सर्फ एक्सल, टाइड, विम शामिल थे। छापेमारी के दौरान ब्रांडेड थैलियों में पैक व इनके मार्के भी मिले हैं।

टीम के सदस्यों ने बताया कि इस फैक्ट्री को आदर्श नगर नरवाना निवासी विकास चला रहा था। टीम ने फैक्ट्री में मौजूद सर्फ के बैगों एवं खुले सर्फ को सैंपल के तौर पर ले लिया। इस दौरान एडवोकेट वंदना गोवर ने आरोपित विकास मित्तल को 27 अप्रैल को मुंबई हाई कोर्ट में पेश होने का समय दिया है। बताया जा रहा है इस फैक्ट्री में तैयार किया गया मंहगे ब्रांड वाला यह सर्फ पूरे हरियाणा में सप्लाई होता था। फलस्वरूप विकास अपने इस काले धंधे से अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा था लेकिन जनता एवं हिंदुस्तान यूनिलिवर कंपनी के साथ यह एक बड़ा धोखा था। स्थानीय पुलिस जांच कर रही है।

Source: <https://navbharattimes.indiatimes.com/state/punjab-and-haryana/jind/fake-surf-making-factory-busted/articleshow/81381497.cms>